



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1935 (श0)
(सं0 पटना 29) पटना, वृहस्पतिवार, 2 जनवरी 2014

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

31 दिसम्बर 2013

सं0 3/एम0-32/2013सा0प्र0-19813—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों एवं पदाधिकारियों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु इस विभाग का संकल्प संख्या 2804 दिनांक 29.03.2010 निर्गत है।

2. उक्त की कंडिका-6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, समय-समय पर, कुछ अन्य पदों को संकल्प की कंडिका-4 में सम्मिलित किया गया है जिसके संदर्भ में अद्यतन विभागीय आदेश संख्या 11338 दिनांक 09.07.2013; आदेश संख्या 12951 दिनांक 06.08.2013 एवं आदेश संख्या 16599 दिनांक 21.10.2013 निर्गत है।

3. उक्त के उपरांत विभिन्न विभागों द्वारा किये गये अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरांत कुछ अन्य पदों को संकल्प की कंडिका-4 में, निम्नरूप से, सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्र0	विभाग का नाम	संकल्प संख्या 2804 दिनांक 29.03.2010 की कंडिका-4 में सम्मिलित किये जा रहे पद
1.	परिवहन विभाग	ट्रेजरी सरकार
2.	गृह (आरक्षी) विभाग	बिहार पुलिस रेडियो संगठन के ऑपरेशनल उप संवर्ग के — 1. साक्षर सिपाही (ऑप0) 2. सहायक अवर निरीक्षक (ऑप0) 3. अवर निरीक्षक (ऑप0) 4. पुलिस निरीक्षक (ऑप0)
3.	महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवायें	उप निदेशक बजट एवं लेखा (बि0स0से0 के अवर सचिव के समकक्ष)
4.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	1. वरीय लेखा लिपिक 2. कनीय लेखा लिपिक 3. उच्चवर्गीय लिपिक 4. निम्नवर्गीय लिपिक 5. पम्प ऑपरेटर

क्र०	विभाग का नाम	संकल्प संख्या 2804 दिनांक 29.03.2010 की कंडिका-4 में सम्मिलित किये जा रहे पद
		6. नलकूप मिस्त्री 7. प्लम्बिंग मिस्त्री 8. इलेक्ट्रिशियन 9. आदेशपाल
5.	स्वास्थ्य विभाग	1. प्राध्यापक 2. सह-प्राध्यापक

4. उक्त पदों पर संविदा के आधार पर सेवायें लिए जाने के संबंध में संकल्प संख्या 2804 दिनांक 29.03.2010 की कंडिका-5 एवं उसमें निहित शर्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं उक्त आलोक में इन पदों पर सेवायें लिए जाने के संबंध में विभागों द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बशिष्ठ सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 29-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>